

प्रेस नोट

(सनसनी खेज हत्या का पर्दाफाश)

पुलिस कार्यवाही का विवरण

दिनांक 22.07.2021 को थाना पिसावा के क्षेत्र ग्राम धर्मपुर मे नीरज पुत्र देशराज की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध मे उसके भाई श्री देवराज सिंह s/0 देशराज सिंह निवासी धर्मपुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ ने मु0अ0स0 97/21 धारा 302 भादवि वनाम अभियुक्त गण अज्ञात पंजीकृत कराया गया । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय , जनपद अलीगढ के आदेश के अनुपालन मे व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय , जनपद अलीगढ के निर्देशन व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय , खैर , जनपद अलीगढ के पर्यवेक्षण मे मुझ थानाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा उ0नि0 श्री अनुज सिन्धू व उ0नि0 श्री विदेश राठी व का0 2490 सुरेन्द्र सिंह व म0का0 1850 विनीता की गठित टीम व ग्रामीण सर्वेलांस टीम जनपद अलीगढ प्रभारी उ0नि0 रोहित राठी व उनकी टीम के साथ मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए मृतक के साले योगेश व मृतक की बेटी नीतू व पुत्र नितिन के बयानों के आधार पर मृतक नीरज की हत्या उसकी पत्नी देवेन्द्री व ग्राम धर्मपुर निवासी उसके प्रेमी आशू उर्फ कालू ने खाने मे नीद की गोलीयाँ डालकर लोहे की फूकनी से ताबडतोड वार कर की गयी हत्या के बाद घटना स्थल से साक्ष्य मिटाने के लिए रक्त रंजीत कपडो को एक बोरी मे भर कर अनाज की टंकी के पीछे छिपाया गया । तथा अभियुक्ता द्वारा घर से एक मोबाइल व नींद की गोलीयाँ भी बरामद करायी गयी । प्रामाणिक साक्ष्यो के आधार पर अभियोग मे धारा 328,201 भादवि की वृद्धि की गयी । अभियुक्ता को समय करीब 10.30 बजे पुलिस टीम द्वारा मय महिला का0 1850 विनीता की मौजूदगी मे उसके घर से हिरासत पुलिस लिया गया

गिरफ्तार अभियुक्ता

1. देवेन्द्री पत्नि स्व0 श्री नीरज निवासी धर्मपुर थाना पिसावा अलीगढ

गिरफ्तारी का स्थान –

अभियुक्ता के घर ग्राम धर्मपुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ से

अन्य अभियुक्त

1. आशू उर्फ कालू पुत्र निर्दोष नि0 ग्राम धर्मपुर पिसावा जनपद अलीगढ

बरामदगी विवरण-

01. अभियुक्ता व घटना स्थल से हटाये गये रक्त रंजीत कपडे
02. एक मोबाइल फोन
03. 07 नींद की गोलीया

अभियुक्त देवेन्द्री पत्नि स्व० श्री नीरज निवासी धर्मपुर थाना पिसावा अलीगढ आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०स० 97/21धारा 302,328,201 भादवि थाना पिसावा जनपद अलीगढ

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह भदौरिया थाना पिसावा
2. उ०नि० रोहित राठी (प्रभारी ग्रामीण सर्वेलांस टीम)
3. का० नवीन कुमार (ग्रामीण सर्वेलांस टीम)
4. का० गौरव कुमार (ग्रामीण सर्वेलांस टीम)
5. का० योगेश कुमार(ग्रामीण सर्वेलांस टीम)
6. उ०नि० अनुज सिन्धु थाना पिसावा
7. उ०नि० विदेश राठी थाना पिसावा
8. का० 2490 सुरेन्द्र थाना पिसावा
9. का० 1850 विनीता थाना पिसावा

(जितेन्द्र सिंह भदौरिया

)

थानाध्यक्ष
थाना पिसावा
जनपद - अलीगढ